

प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु जन जागरूकता के अंतर्गत लगातार मुनादी की जा रही है साथ ही पूरे निकाय क्षेत्र में होर्डिंग के माध्यम से कोरोना के संक्रमण होने की जानकारी तथा उसके बचाव के उपाय संबंधी जानकारी की हार्डिंग लगाई गई है.

संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी सार्वजनिक तथा सामुदायिक शौचालयों में लिक्विड सोप की व्यवस्था कर दी गई है इसके अतिरिक्त निकाय क्षेत्र के सभी वार्ड कार्यालयों में भी हाथ धोने के लिए वाश बेसिन की व्यवस्था तथा लिक्विड सोप की व्यवस्था की गई है वार्ड कार्यालयों के अतिरिक्त नगर निगम कार्यालय में 2 स्थानों पर तथा बंजारी मंदिर, व्यास तालाब एवं बुधवारी बाजार में हाथ धोने के लिए वाशबेसिन की एवं लिक्विड सोप की व्यवस्था की गई है लोगों से अपील की जाती है कि वह यदि अति आवश्यक कारणों से इन जगहों से गुजरे तो अपना हाथ जरूर धोएं.

शासन के निर्देशानुसार स्वच्छता दीदियों की सुरक्षा हेतु विशेष उपाय किए गए हैं सभी महिलाओं को दस्ताना, मास्क, जूते मोजे और टोपी अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई है सभी एस एल आर एम सेंटरों में नियमित रूप से हाथ धोने हेतु लिक्विड सोप की व्यवस्था तथा एसएलआरएम सेंटर की सफाई हेतु सोडियम हाइपोक्लोराइट की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराई गई है तथा निर्देश दिए गए हैं कि काम खत्म करने के उपरांत सोडियम हाइपोक्लोराइट के द्वारा अच्छे से सफाई किया जाए.

लोगों से अपील की जाती है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु घर से कम से कम निकले अति आवश्यक होने पर ही सावधानी बरतकर ही बाहर निकलें जैसे मुंह और नाक को कपड़े या रुमाल से ढककर रखें ,भीड़भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें ,लोगों से कम से कम डेढ़ मीटर की दूरी बनाए रखें हाथों को नियमित अंतराल पर साबुन से धोते रहें यथासंभव स्वयं एवं अपने परिवार को बाहर निकलने से बचाएं.